

@shahjahanpupol

प्रेस नोट:- जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 10.08.2022

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

रंगदारी माँगने वाले 02 अभियुक्तों व 01 महिला अभियुक्त को 02 अदद चाकू, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाईल व 15000 रुपये बरामद कर किया गिरफ्तार।

दिनांक 03.08.2022 को वादी श्री विवेक कुमार शर्मा पुत्र वीरेश कुमार शर्मा नि0 ग्राम कपसेडा थाना तिलहर द्वारा थाना पर तहरीर देकर सूचना दर्ज करायी गयी कि वादी के पिता की अश्लील वीडियो बनाकर रंगदारी माँगी जा रही है। जिस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर मु0अ0सं0 574/2022 धारा 384/386/506 भादवि व 67A IT ACT पंजीकृत किया गया।

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री अमित चौरसिया, क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

इसी क्रम में दिनांक 09.08.2022 को समय 12.55 बजे श्री वीरेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक तिलहर के नेतृत्व में थाना तिलहर की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रंगदारी माँगने वाले 03 अभियुक्तों 1. राजन 2. आमिर व 01 महिला अभियुक्त को **चीनी मिल गेट तिलहर से** गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 अदद चाकू, घटना में प्रयुक्त 01 मोबाईल व 15000 रुपये बरामद हुए। माल बरामदगी के आधार पर थाना तिलहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

चीनी मिल गेट तिलहर से दिनांक, 09.08.2022 व समय 12.55 बजे

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. राजन पुत्र नरेशचन्द्र निवासी ग्राम डभोरा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. आमिर पुत्र मंगल खाँ उर्फ साहिद खाँ निवासी ग्राम डभोरा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. 01 महिला अभियुक्त निवासी थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी विवरण:-

1. 02 अदद नाजायज चाकू।
2. 01 अदद मोबाईल फोन
3. 15000 रुपये बरामद

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 574/22 धारा 384/386/506 भादवि व 67A IT ACT बनाम राजन, अमित, माधुरी थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 591/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम **राजन** थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. मु0अ0सं0 592/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम **आमिर** थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा
2. उ0नि0 घनश्याम बहादुर
3. का0 1788 प्रिन्स चौधरी
4. का0 1794 गोतम सिंह
5. म0का0 1649 सोनम